

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 615]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1584.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् शुजालपुर, जिला शाजापुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र. नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1 नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, जिला शाजापुर	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	— एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह	संदीप लक्ष्मणराव सणस इमरान अली (गुड्डू) जीवन-राणा विक्रम सिंह सिसोदिया अनू पठॉन किरण-राजेन्द्र जैन श्रीमती-शहाना-शरीफ पठान श्रीमती-लक्ष्मीबाई काले कुंवरजी बागरी गोमा-प्रेमसिंह बागरी सूरज परमार एडव्होकेट रफीक खां	भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	पार्षद		12	बारह	मोनिका-विष्णु गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		13	तेरह	अनिता परमार	निर्दलीय
	पार्षद		14	चौदह	मनोरमा नरेन्द्र परमार	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		15	पन्द्रह	गजेन्द्र कुमार जायसवाल (राजू)	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		16	सोलह	भगवानसिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		17	सत्रह	प्रवीण जोशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद		18	अठारह	कवलदीप-परमजीत राजपाल	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		19	उन्नीस	पुष्पा बेरागी	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		20	बीस	रूपल-सचिन शाह	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		21	इक्कीस	नीरज जैन	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		22	बाईस	पप्पी संजय बरेठा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद		23	तेईस	निर्मलाबाई मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		24	चौबीस	रमेश कामरिया	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद		25	पच्चीस	मोहिनी (राकेश) रायकवार	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1585.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पानखेड़ी, जिला शाजापुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पानखेड़ी, जिला शाजापुर	अध्यक्ष	—	—	अनिता नरेन्द्र सोनी	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	1	एक	फूलकुंवर मेवाडा	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	2	दो	राजेश भिलाला	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	3	तीन	शिवप्रसाद कुंवर जी मेवाडा	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	4	चार	मीना गोविन्दसिंह परमार	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	5	पांच	कमल किशोर शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	6	छः	मदनसिंह राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	7	सात	रामकन्या लखनसिंह परमार	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	8	आठ	ज्योति खत्री	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	9	नौ	निशा ओमप्रकाश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
		पार्षद	10	दस	प्रकाशचन्द्र सुरेशकुमार सोनी	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	11	ग्यारह	ललिता लखन परमार	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		पार्षद	12	बारह	यामिनी धीरेन्द्र सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
		पार्षद	13	तेरह	सरिता सुरेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	14	चौदह	आशुतोष शर्मा "अंशु महाराज"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
		पार्षद	15	पन्द्रह	केदारसिंह अस्ताया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1586.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् अकोदिया, जिला शाजापुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता		
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, अकोदिया, जिला शाजापुर	अध्यक्ष	—	—	माया दौलतसिंह मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	1	एक	सुनिताबाई, राधेश्याम	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	2	दो	ज्ञानसिंह मेवाडा	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	3	तीन	लोकेन्द्रसिंह राहुल मण्डलोई	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
		पार्षद	4	चार	अन्जुम बी जाफर खां	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	5	पांच	कमलसिंह मेवाडा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
		पार्षद	6	छः	गजराजसिंह मेवाडा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
		पार्षद	7	सात	सुगनबाई बंशी कारीगर	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	8	आठ	शिवप्रतापसिंह मंडलोई	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
		पार्षद	9	नौ	नसरीन बी वारिस कुरेशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
		पार्षद	10	दस	ममता मनिष परमार	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	11	ग्यारह	अन्नपुर्णा अनिल शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	12	बारह	जानकी पति. शिवनारायण	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	13	तेरह	रुकसाना बी पति हबीब उल्लाह (बुल्ला)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
		पार्षद	14	चौदह	अशोक कुमार कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी	
		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रदीप खत्री रमेश खत्री	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1587.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पोलायकलां, जिला शाजापुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पोलायकलां, जिला शाजापुर	अध्यक्ष	—	—	ममता मुकेश चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	बसकन्या पति ज्ञानसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सुनिताबाई भोपालसिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	प्रदीप कुमार पिता बालाप्रसाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	महेशकुमार पिता शिवनारायण खाती	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच खाती	चंदरसिंह पिता जुगलकिशोर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कविता पति हूकमसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	फुलीबाई पति रामसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	कैलाश पिता देवलाल मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नर्मदाबाई राजकुमार मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	विक्रम सिंह चन्द्रवंशी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	ज्योतिबाला मोहन दुबे	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	प्रकाश चौधरी फुडरावाले	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	निशा मनोजकुमार पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	विष्णुप्रसाद पिता घासीराम	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मनीषा हुकुमसिंह चन्द्रवंशी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1588.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् मक्सी, जिला शाजापुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मक्सी जिला शाजापुर	अध्यक्ष	—	—	राजेन्द्रसिंह-रामचन्द्र पटेल “गुडडु”	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	पार्षद	1	एक	रमकली बाई पति मिश्रीलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
3	पार्षद	2	दो	रमेशचंद यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
4	पार्षद	3	तीन	पूजा मोडसिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी	
5	पार्षद	4	चार	चिंतामण पिता जालमसिंह मण्डलोई	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
6	पार्षद	5	पांच	राजेश गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
7	पार्षद	6	छः	अनवर खॉ-अकबर खॉ	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
8	पार्षद	7	सात	कलाबाई-जगदीशलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
9	पार्षद	8	आठ	सुभाष-बद्रीलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
10	पार्षद	9	नौ	लक्ष्मीबाई पति चंदरसिंह पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
11	पार्षद	10	दस	सरिता दयाराम मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	संगीता हंसराज जैन	भारतीय जनता पार्टी	
13	पार्षद	12	बारह	शमीम बी पति मोहम्मद इलियास	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
14	पार्षद	13	तेरह	मोहन लोधी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
15	पार्षद	14	चौदह	शारदा बाई पति बद्रीलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	छानलाल पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.